

विशेष रिपोर्ट

# मसाले

जून 2022



# हल्दी

## महत्वपूर्ण कारक

- घरेलू मसाला उद्योगों और स्टॉकिस्टों की ओर से मांग
- देश में हल्दी की बुआई की स्थिति
- हल्दी उत्पादक राज्यों में मौसम की स्थिति
- मध्य-पूर्व और बांग्लादेश से निर्यात मांग
- किसानों और व्यापारियों के पास स्टॉक की स्थिति

## हल्दी वायदा का साप्ताहिक चार्ट



## फंडामेंटल:

- मई 2022 में, हल्दी की कीमतों में लगातार चौथे महीने गिरावट हुई है और 6.5% से अधिक की गिरावट के साथ बंद हुई है। हल्दी की कीमतें 2022 में पहली बार 8000 ₹/क्वि. के भाव से नीचे बंद हुई है।
- नए साल 2022 की शुरुआत से ही देश से पर्याप्त स्टॉक और कम निर्यात के कारण हल्दी वायदा की कीमतों में 17% या 16600 प्रति क्विंटल से अधिक की गिरावट हुई है। इसके अलावा, किसान आने वाले महीनों में निर्यात में सुधार के कारण जून से कीमतों में वृद्धि की उम्मीद में अपनी फसलों को रोके हुए हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय हल्दी का निर्यात दुनिया के 140 से अधिक देशों में हुआ है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, देश ने हल्दी का निर्यात खाड़ी, यूरोप संघ, अमेरिका और बांग्लादेश को 14,000 करोड़ रुपये का किया है।
- सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2021/22 में, निर्यात पिछले साल की तुलना में 16.7% घटकर 1.53 लाख टन रह गया है लेकिन 5 साल के औसत की तुलना में 10% अधिक है। मार्च 2022 में हल्दी का निर्यात मार्च 2021 के 37175 टन की तुलना में 1.15% घटकर 36750 टन रह गया है।
- महाराष्ट्र और तमिलनाडु के सिंचित क्षेत्रों में हल्दी की फसल की बुआई शुरू हो गई है लेकिन नई फसल की आवक में करीब 8-9 महीने की देरी है। आने वाले मौसम में हल्दी का रकबा स्थिर रह सकता है, लेकिन कुछ किसानों के सोयाबीन या कपास की ओर रुख करने की संभावना है, जिससे उत्पादकों को आकर्षक रिटर्न मिला है।
- आउटलुक

हल्दी वायदा की कीमतें तेजी के रूझान के साथ साइडवेज रह सकती है क्योंकि कीमतों को 7800 के स्तर पर मजबूत समर्थन मिला है। अगले दो महीनों में निर्यात मांग में सुधार की उम्मीद में खरीदार इन स्तरों पर खरीदारी करना चाह रहे हैं। वर्तमान में कीमतें देश से निर्यात मांग पर निर्भर करती हैं। मौसमी चार्ट के अनुसार, जून-जुलाई के महीने के दौरान निर्यात में सुधार की उम्मीद पर कीमतों को तेजी के रूझान के साथ कारोबार करने की उम्मीद है। एनसीडीईएक्स में हल्दी वायदा (जुलाई) की कीमतें 8400 तक बढ़ सकती हैं और समर्थन 7800 पर देखा जा सकता है।

## हल्दी का टेक्निकल स्तर

कॉन्ट्रैक्ट	स्टॉपलॉस 1	स्टॉपलॉस 2	मध्य	रेजिस्टेंस 1	रेजिस्टेंस 1
जुलाई	7,550	7,828	8,200	8,480	8,860

## हल्दी वायदा कीमतों में मासिक बदलाव चार्ट (%)



## हल्दी वायदा का मौसमी चार्ट

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
2022	-4.37%	-6.68%	-6.24%	-3.01%	-6.65%							
2021	10.63%	36.67%	2.26%	-8.08%	-0.08%	-6.23%	0.73%	8.85%	-8.78%	-6.60%	3.27%	37.90%
2020	-9.23%	0.74%	-3.23%	-3.55%	-5.86%	9.10%	0.07%	6.81%	-6.05%	0.90%	-5.01%	7.01%
2019	-5.07%	-1.94%	-3.02%	5.82%	8.22%	-8.98%	6.18%	0.42%	-9.14%	-0.23%	-7.01%	15.12%
2018	-7.75%	-9.07%	0.55%	8.01%	-0.67%	3.75%	-1.22%	-6.30%	-1.17%	0.95%	-4.35%	3.66%
AVG	-1.41%	1.94%	-1.94%	-0.16%	-1.00%	-0.59%	1.48%	2.44%	-6.28%	0.20%	-3.28%	15.47%

# जीरा

## महत्वपूर्ण कारक

- चालू वर्ष के लिए उत्पादन अनुमान
- भौतिक बाजारों में आवक की मात्रा
- किसानों और व्यापारियों के पास स्टॉक
- भारतीय जीरे की घरेलू और निर्यात मांग
- अन्य जीरा उत्पादक देशों में उत्पादन की संभावनाएं

## जीरा वायदा का साप्ताहिक चार्ट



## फंडामेंटल:


- मई में एनसीडीईएक्स पर जीरा वायदा की कीमतें 2022 में पहली बार गिरावट के साथ बंद हुईं और लगभग 3% की गिरावट के साथ बंद हुईं। कीमतों को 22000 के स्तर पर मजबूत रजिस्ट्रेंस का सामना करना पड़ा। इसके अलावा, निर्यात मांग के 4 साल के निचले स्तर पर रहने से भी मई के महीने में कीमतों पर दबाव पड़ा। वर्तमान में जीरा पिछले साल की कीमतों की तुलना में 50% अधिक पर कारोबार कर रहा है। 2022 में, कीमतों में 28% से अधिक की वृद्धि हुई है क्योंकि कम उत्पादन और थोक खरीदारों की अच्छी मांग के कारण कीमतें जनवरी में ही 19% के करीब बढ़ गई थी।
- अधिक कीमतों के कारण, थोक खरीदारों और स्टॉकिस्टों की ओर से जीरा की घरेलू मांग लगभग 50% कम हुई है इसलिए मसाला निर्माताओं और निर्यातकों के पास स्टॉक कम है क्योंकि वे आवश्यकता के अनुसार खरीद रहे हैं।
- 2022 के पहले 3 महीनों के दौरान भारतीय जीरा निर्यात बहुत सुस्त रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश ने वर्ष में 37% की गिरावट के साथ लगभग 43,250 टन जीरा निर्यात किया। पिछले साल इसी अवधि के दौरान निर्यात 68,000 टन से अधिक था। फिलहाल भारतीय जीरे की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 2900 डॉलर से 2950 डॉलर प्रति टन है। वित्त वर्ष 21-22 में, जीरा निर्यात 27% कम होकर 2.16 लाख टन रहा, जो पिछले वित्त वर्ष में 3 लाख टन के करीब था।
- अधिक कीमतों के कारण यूरोपीय देशों में जीरे की मांग पिछले साल की तुलना में इस साल कम हुई है। इसके अलावा, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की स्थिति के कारण, अनिश्चित मांग की स्थिति होने से यूरोपीय व्यापारियों को जीरा स्टॉक करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। भारतीय जीरा के लिए प्रमुख निर्यात गंतव्य चीन, बांग्लादेश और अमेरिका हैं, जहां लगभग एक-तिहाई जीरा निर्यात होता है। 2021/22 के दौरान दुनिया के 151 देशों में जीरा का निर्यात किया जाता है।
- आउटलुक

उच्च स्तर से मुनाफावसूली जारी रहने से जीरा वायदा कीमतों के नरमी के रूझान के साथ साइडवेज कारोबार करने की संभावना है। इसके अलावा, कम घरेलू मांग और सुस्त निर्यात मात्रा आने वाले महीनों में कीमतों पर दबाव बनाए रख सकती है। हमने देखा है कि मानसून के मौसम में हर साल जीरे की मांग घटती है, जबकि ऊंची कीमतें भी धीमी घरेलू मांग का एक कारण हैं। लेकिन मौसमी चार्ट के अनुसार, जीरा की कीमतें जून-जुलाई के दौरान अधिक बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन फिर भी यह निर्यात संख्या पर निर्भर करती है। जीरा वायदा (जुलाई) की कीमतें यदि 20470 से नीचे कारोबार करती है तो 20000/19800 नीचे तक गिरावट दर्ज कर सकती है।

## जीरा का टेक्निकल स्तर

कॉन्ट्रैक्ट	स्टॉपलॉस 1	स्टॉपलॉस 2	मध्य	रेजिस्ट्रेंस 1	रेजिस्ट्रेंस 1
जुलाई	19,805	20,700	21,600	22,500	23,400

## जीरा वायदा की कीमतों में मासिक बदलाव चार्ट (%)



## जीरा वायदा का मौसमी चार्ट



# धनिया

## महत्वपूर्ण कारक

- किसानों और स्टॉकिस्टों के पास कम स्टॉक
- मसाला उद्योगों और स्टॉकिस्टों की ओर से मांग
- घरेलू मांग और मौजूदा कीमतों पर निर्यात मांग
- मानसून में प्रगति
- सीरिया, रूस और यूक्रेन जैसे अन्य उत्पादक देशों में उत्पादन अनुमान

## धनिया वायदा का साप्ताहिक चार्ट



## फंडामेंटल:

- मई में धनिया वायदा की कीमतों में आठ महीने में पहली बार गिरावट हुई है और उच्च स्तर पर मुनाफा वसूली के कारण कीमतों में 8% की गिरावट हुई है। इसके अलावा, मंडियों में आवक में वृद्धि उच्च कीमतों पर सामान्य मांग ने पिछले महीने कीमतों पर दबाव डाला है। कम उत्पादन और थोक खरीदारों और मसाला उद्योगों से अच्छी घरेलू मांग के कारण वर्तमान में कीमतें वर्ष-दर-वर्ष 62% अधिक हैं और जनवरी से 26% अधिक हैं।
- मौसम के अनुसार हर साल अप्रैल-मई के महीने में तेज गर्मी के कारण धनिया के भाव में गिरावट देखने को मिलती है। पिछले एक महीने में धनिया के हाजिर बाजार में 10-12 प्रति किलोग्राम की गिरावट आई है जबकि धनिया वायदा की कीमतों में 2100 की गिरावट हुई है।
- बाजार सूत्रों के मुताबिक गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में करीब 80-85% फसल पहले ही बाजार में आ चुकी है। अधिकांश स्टॉक स्टॉकिस्टों के पास हैं, जबकि मसाला उद्योग इसे आवश्यकता के अनुसार खरीद रहे हैं क्योंकि पिछले साल की तुलना में इस सीजन में कीमतें 60-65% अधिक हैं।
- रूस, बुल्गारिया, यूक्रेन, रोमानिया, मोरक्को आदि जैसे अन्य धनिया उत्पादक देशों में धनिया की नई फसल की आवक जुलाई के महीने में शुरू हो जाएगी, लेकिन उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में, विशेष रूप से यूक्रेन, सीरिया और ईरान में, कम रहने की उम्मीद है।
- सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, जनवरी-मार्च 2022 में धनिया का निर्यात पिछले वर्ष की समान अवधि के 14250 टन की तुलना में वर्ष-दर-वर्ष 22% कम होकर 11100 टन हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2021/22 में निर्यात पिछले साल के 57,350 टन से 15.24% घटकर 48,600 टन हुआ है, लेकिन 5 साल के औसत की तुलना में 9.5% कम है।
- धनिया को मुख्य रूप से बांग्लादेश, नेपाल और संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात किया जाता है, जिसमें इन दिशाओं की कुल हिस्सेदारी 70% है, जबकि पाउडर के रूप में धनिया ज्यादातर दक्षिण अफ्रीका, यूके और यूएसए को आपूर्ति की जाती है।


## आउटलुक

धनिया वायदा के नरमी के रूझान के साथ साइडवेज कारोबार करने की उम्मीद है क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान से धनिया की अधिक आवक के कारण कुछ दबाव देखा जा रहा है। इसके अलावा, कम निर्यात मांग और व्यापारियों और किसानों के पास पर्याप्त स्टॉक के कारण कीमतों में अधिक गिरावट की उम्मीद में मसाला उद्योगों से इन स्तरों पर मांग में अभी भी सुधार नहीं हो रहा है। इसके अलावा, मौसम के अनुसार, कीमतें मई-जून के दौरान अधिक बढ़ने से पहले गिरावट की ओर अग्रसर हैं। हम उम्मीद करते हैं कि धनिया वायदा (जुलाई) की कीमतें यदि 11150 रु नीचे कारोबार करती है तो 10200/10000 के स्तर तक लुटक सकती हैं।

## धनिया का टेक्निकल स्तर

कॉन्ट्रैक्ट	स्टॉपलॉस 1	स्टॉपलॉस 2	मध्य	रेजिस्टेंस 1	रेजिस्टेंस 1
जुलाई	10,050	10,710	11,590	12,250	13,130

## धनिया वायदा कीमतों में मासिक बदलाव चार्ट (%)



## धनिया वायदा का मौसमी चार्ट



वंदना भारती	एवीपी कमोडिटी रिसर्च	फोन न. 011-30111000 एक्सटें. 625	<a href="mailto:vandanabharti@smcindiaonline.com">vandanabharti@smcindiaonline.com</a>
रितेश कुमार साहु	सीनियर रिसर्च एनालिस्ट	फोन न. 011-30111000 एक्सटें. 674	<a href="mailto:riteshkumarsahu@smcindiaonline.com">riteshkumarsahu@smcindiaonline.com</a>
शिवानन्द उपाध्याय	रिसर्च एसोसिएट	फोन न. 011-30111000 एक्सटें. 646	<a href="mailto:shivanand@smcindiaonline.com">shivanand@smcindiaonline.com</a>

आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- [www.smctradeonline.com](http://www.smctradeonline.com)



**Corporate Office:**  
11/6B, Shanti Chamber,  
Pusa Road, New Delhi - 110005  
Tel: +91-11-30111000  
[www.smcindiaonline.com](http://www.smcindiaonline.com)

**Mumbai Office:**  
Lotus Corporate Park, A Wing 401 / 402 , 4th Floor ,  
Graham Firth Steel Compound, Off Western  
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon  
(East) Mumbai - 400063  
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

**Kolkata Office:**  
18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,  
5th Floor, Kolkata-700001  
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000  
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोरीज लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का नियमन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाएं और संबंधित सेवाएं करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोरीज लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एम्प्लॉयर्स ऑफ इंडिया लिमिटेड का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉमिटेड नेशनल कॉमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और भारत के अन्य कॉमोडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एमसीएस स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की सदस्य हैं। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मर्चेन्ट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड हैं। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएमएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोरीज लिमिटेड सेबी (रिसर्च एनालिस्ट) रेगुलेशन 2014 के तहत रिसर्च एनालिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोरीज लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एथॉरिटी द्वारा सिन्क्रोरीज मार्केट/कॉमोडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निलंबित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसर्च एनालिस्टों द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आंकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री की शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार की परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसर्च एनालिस्ट, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कॉमोडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय हैं।

**डिसक्लेमर:** यह रिसर्च रिपोर्ट अधिकृत प्रादाकर्ता की व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक के किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सन्तुलन एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विस्तृत सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाये गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉर्पोरेट या सत्ता की जरूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन को गारंटी नहीं देता है। निवेश की वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बड़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसकी (अ) समय-समय पर किसी भी कॉमोडिटीज में, जिनका इस रिपोर्ट में चिह्न किया गया है, खरीद या बिक्री, कोई भी पोषण हो सकती है और वह इस कॉमोडिटीज को खरीद या बिक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कॉमोडिटीज के किसी भी प्रकार के सौदों में और ब्रोकरेज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।